



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 68-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 19, 2019 (CHAITRA 29, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अप्रैल, 2019

**संख्या 5.-** विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (अब निरस्त), की धारा 79 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 260/ईजी-13 दिनांक 19.06.1987 के तहत जारी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड अभियंता (विद्युतीय) सेवा भर्ती विनियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करते हैं:-

- ए) बोर्ड का आवासीय स्थान बनाए रखना जिस स्थान से वे विद्यमान शर्तों पर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं।
- बी) मकान किराया भत्ता सहित स्वीकार्य भत्ते झा करना, यदि निजी आवास में रह रहे हैं जहां से वे प्रशिक्षण पर जाने से पहले नियुक्त थे।
- सी) सम्पूर्ण प्रशिक्षण के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता झा करना क्योंकि उनको दो स्थापनाएं अनुरक्षित करनी हैं अर्थात् एक प्रशिक्षण के स्टेशन पर तथा दूसरी उस जगह जहां उनके परिवार रह सकते हैं।

**नोट-I** विशेष भत्ता/स्थानीय आउटडोर ड्यूटी भत्ता, प्रोडक्शन बोनस तथा शिफ्ट ड्यूटी भत्ता प्रशिक्षण के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा।

**नोट-II** उपरोक्त आदेश जी.टी.ए. के लिए लागू नहीं होंगे।

**नोट-III** बदरपुर के लिए प्रशिक्षण हेतु नियुक्त तथा थर्मल प्रोजेक्ट, फरीदाबाद में कार्यरत अधिकारियों को कार्यालय आदेश संख्या 469/बी.डी.-33 (427)84 दिनांक 25.02.87 के तहत जारी विद्यमान नियमों/अनुदेशों द्वारा टीए/डीए के संबंध में निरंतर नियंत्रित रखा जाएगा।

2. ये संशोधन 19.06.1987 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 28 मार्च, 2019.

टी. सी. गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विद्युत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****POWER DEPARTMENT****Notification**

The 19th April, 2019

**No. 5.**— In exercise of powers conferred under Section 79 (c) of the Electricity (Supply) Act, 1948 (now repealed), the Governor of Haryana is pleased to notify the following amendment in the 'PSEB Service of Engineers (**Electrical**) Recruitment Regulation, 1965' issued by erstwhile HSEB *vide* Office Order No. 260/EG-13 dated 19.06.1987 w.e.f. date of office order:-

- a) To retain Board's residential accommodation from the place they are sent on training on the existing terms and conditions.
- b) To draw the admissible allowance including House Rent Allowance, if residing in private accommodation at the places where they were posted prior to proceeding on training.
- c) To draw full daily allowance for whole of the training period as they will have to maintain two establishments i.e. one at the station of training and the other at the place where their families may stay.

**Note-I** Special allowance/Local Out-door duty allowance, Production Bonus and Shift duty Allowance shall not be admissible during the period of training.

**Note-II** The above orders would not be applicable to G.T. As.

**NOTE-III** Officers working on Thermal project, Faridabad and deputed for training to Badarpur would continue to be governed by the existing rules/instructions issued vide office Order No. 469/Bd-33(427)84 dated 25.02.87, regarding TA/DA

**2.** These amendments are deemed to have come into force with effect from 19.06.1987 i.e. actual date of issuance of Office Order.

Chandigarh:  
The 28th March, 2019.

T. C. GUPTA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Power Department.